



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 चैत्र 1935 (श0)  
(सं0 पटना 259) पटना, शनिवार, 30 मार्च 2013

---

विधि विभाग

अधिसूचना

29 मार्च 2013

सं० एल०जी०-1-8/2013/लेज:29—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा,  
सरकार के सचिव ।

## बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2013

## [बिहार अधिनियम 2, 2013]

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।—(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 924,75,13,95,000 (नौ सौ चौबीस अरब पचहत्तर करोड़ तेरह लाख पनचानबे हजार) रुपये की निकासी । — बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियां, जो कुल 924,75,13,95,000 (नौ सौ चौबीस अरब पचहत्तर करोड़ तेरह लाख पनचानबे हजार) रुपये तक होंगी, शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेंगी।

3. विनियोग-। — इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31 वीं मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियुक्त किया जायेगा ।

**अनुसूची**  
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	25,50,19,11,000	0	25,50,19,11,000
		पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	9,66,36,53,000	0	9,66,36,53,000
		पूंजी	7,00,00,00,000	0	7,00,00,00,000
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	4,47,47,16,000	0	4,47,47,16,000
		पूंजी	10,57,54,13,000	0	10,57,54,13,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	1,45,65,73,000	0	1,45,65,73,000
		पूंजी	9,07,00,00,000	0	9,07,00,00,000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	7,87,35,000	7,87,35,000
		पूंजी	0	0	0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	74,78,93,000	0	74,78,93,000
		पूंजी	0	0	0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	27,91,82,000	0	27,91,82,000
		पूंजी	0	0	0
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	78,69,80,000	0	78,69,80,000
		पूंजी	0	0	0
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	4,51,59,04,000	0	4,51,59,04,000
		पूंजी	70,83,65,000	0	70,83,65,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	24,99,56,02,000	0	24,99,56,02,000
		पूंजी	18,50,82,63,000	0	18,50,82,63,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	8,63,42,18,000	0	8,63,42,18,000
		पूंजी	2,87,00,00,000	0	2,87,00,00,000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3,82,49,05,000	2,93,45,00,000	6,75,94,05,000
		पूंजी	24,00,00,00,000	0	24,00,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	58,87,97,28,000	58,87,97,28,000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियां	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	32,38,72,50,000	32,38,72,50,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व	1,12,63,66,93,000	10,37,30,000	1,12,74,04,23,000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	33,17,04,33,000	0	33,17,04,33,000
		पूंजी	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1,27,27,52,000	0	1,27,27,52,000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	8,47,96,37,000	0	8,47,96,37,000
		पूंजी	5,78,50,44,000	0	5,78,50,44,000
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	1,72,17,43,000	0	1,72,17,43,000
		पूंजी	21,15,07,000	0	21,15,07,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	27,85,09,39,000	0	27,85,09,39,000
		पूंजी	5,71,75,00,000	0	5,71,75,00,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	1,79,77,77,53,000	0	1,79,77,77,53,000
		पूंजी	3,03,00,01,000	0	3,03,00,01,000
22	गृह विभाग	राजस्व	48,01,01,52,000	0	48,01,01,52,000
		पूंजी	4,94,65,58,000	0	4,94,65,58,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	4,93,51,39,000	0	4,93,51,39,000
		पूंजी	35,10,00,000	0	35,10,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	83,75,21,000	0	83,75,21,000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1,73,70,89,000	0	1,73,70,89,000
		पूंजी	41,00,00,000	0	41,00,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	2,00,33,50,000	0	2,00,33,50,000
		पूंजी	11,62,00,000	0	11,62,00,000
27	विधि विभाग	राजस्व	6,19,78,34,000	0	6,19,78,34,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	1,16,24,65,000	1,16,24,65,000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	18,31,73,000	0	18,31,73,000
		पूंजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	2,33,30,67,000	0	2,33,30,67,000
		पूंजी	1,00,60,00,000	0	1,00,60,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	1,41,67,000	0	1,41,67,000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	1,09,56,31,000	67,12,000	1,10,23,43,000
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	4,11,62,19,000	4,25,70,000	4,15,87,89,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	13,83,56,000	13,83,56,000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	9,30,95,68,000	0	9,30,95,68,000
		पूंजी	9,74,91,00,000	0	9,74,91,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	4,38,03,57,000	0	4,38,03,57,000
		पूंजी	5,01,43,48,000	0	5,01,43,48,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	8,71,91,88,000	0	8,71,91,88,000
		पूंजी	16,00,91,16,000	0	16,00,91,16,000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	1,47,95,25,000	0	1,47,95,25,000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	8,56,77,90,000	0	8,56,77,90,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	5,93,17,78,000	0	5,93,17,78,000
		पूंजी	38,26,65,000	0	38,26,65,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	7,53,41,49,000	0	7,53,41,49,000
		पूंजी	42,30,22,00,000	0	42,30,22,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	17,42,92,42,000	0	17,42,92,42,000
		पूंजी	47,00,00,000	0	47,00,00,000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	92,33,11,000	0	92,33,11,000
		पूंजी	90,88,37,000	0	90,88,37,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	10,16,92,39,000	0	10,16,92,39,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1,10,84,05,000	0	1,10,84,05,000
		पूंजी	34,00,000	0	34,00,000

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	25,26,88,000	0	25,26,88,000
		पूँजी	82,43,00,000	0	82,43,00,000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	39,06,22,000	0	39,06,22,000
		पूँजी	11,60,26,000	0	11,60,26,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	21,14,90,88,000	0	21,14,90,88,000
		पूँजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	8,18,85,37,000	0	8,18,85,37,000
		पूँजी	25,00,35,27,000	0	25,00,35,27,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	4,98,01,52,000	0	4,98,01,52,000
		पूँजी	2,21,70,24,000	0	2,21,70,24,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	41,33,30,87,000	0	41,33,30,87,000
		पूँजी	9,50,00,000	0	9,50,00,000
योग राजस्व			6,73,10,15,55,000	63,34,67,96,000	7,36,44,83,51,000
योग पूँजी			1,55,91,57,94,000	32,38,72,50,000	1,88,30,30,44,000
महायोग			8,29,01,73,49,000	95,73,40,46,000	9,24,75,13,95,000

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विनोद कुमार सिन्हा,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 259-571+400-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>